

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 13] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26, 1964/ MAGHA 6, 1325

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January 1964

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to:—

Shri Eric Herbert Henderson, Additional Chief Inspector (Retired), Custom House, Calcutta.

2. This award is made under clause (a)(ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B, dated the 5th November, 1962.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, West Bengal, Calcutta for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Late Shri Keshab Lal Ghose, Sepoy

(POSTHUMOUS)

Statement of services for which the certificate is awarded

A preventive party, including Shri Ghose, intercepted on the night of 12th September 1963 at about 3-30 A.M. near Dignagar, a lorry suspected to be carrying contraband goods. Shri Ghose was assigned the duty of stopping other suspected vehicles which might approach. He was standing in front of the Customs vehicle to perform this duty. A suspected lorry was seen approaching at high speed and tried to avoid checking by defying the signal to stop which was given by Shri Ghose. In the attempt to avoid being brought to a halt the lorry crashed into the Customs vehicle, killing Shri Ghose on the spot. Thus, Shri Ghose laid down his life in the performance of his duty.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B dated the 5th November, 1962

and consequently carries with the monetary allowance admissible to his widow under clause (b) *ibid* @Rs. 10/- p.m. for a period of ten years from 12th September 1963 to 11th September 1973.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, West Bengal, Calcutta for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Late Shri Dharendra Nath Sarkar, Sepoy.

(POSTHUMOUS)

Statement of services for which the certificate is awarded:—

On 16th October, 1962, a preventive party including Shri Sarkar, was posted on duty on Taki Road, about twenty-five miles from Calcutta, to spot and seize a car suspected of carrying contraband goods. The party observed the car moving at high speed and tried to block it by placing a bullock cart across the road. The driver of the suspected car, however, dashed against the cart resulting in the death of Shri Sarkar on the spot. Thus, Shri Sarkar laid down his life in the performance of his duty.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B dated the 5th November, 1962 and consequently carries with the monetary allowance admissible to his widow under clause (b) *ibid* @ Rs. 10/- p.m. for the period from 5th November, 1962, to 15th October, 1972.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Madras, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Shri K. Achutha Menon, Inspector of Central Excise.

Statement of services for which the certificate has been awarded

While attached to the Collectorate Headquarters Customs Preventive Unit, Shri K. Achutha Menon was, on 1st March, 1963, on the look out for some motor vehicles suspected to be transporting contraband goods. He was in a Government vehicle, which he was himself driving. He noticed a suspected car moving at high speed towards Madras. He gave chase to it and tried to close up with it thrice, but each time, the driver managed to escape detention. Ultimately, Shri Menon overtook the suspected vehicle and forced it to a halt by cutting in when the car was negotiating a bend on the highway over a railway bridge. This daring act, performed even at the risk of his life, resulted in the seizure of the vehicle and contraband goods valued at Rs. 71,000/-.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B dated the 5th November, 1962 and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 25/- p.m. for a period of five years from 1st March, 1963 to 29th February, 1968.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Custom House, Bombay for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Shri Bapu Laxman, Sepoy.

Statement of services for which the certificate is awarded

Shri Bapu Laxman has been responsible for effecting a large number of gold, currency and opium seizures worth several lakhs of rupees even at risk to his life. He has been instrumental in apprehending even Government officials, such as Police Constables, Customs Sepoys, Preventive Inspectors, engaged in illegal activities. On 7th February, 1963, he apprehended a Police Constable carrying watches valued at Rs. 46.620/- which were concealed in a cloth belt tied round his waist.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B dated the 5th November, 1962 and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 10/- p.m. for a period of five years from 7th February, 1963 to 6th February, 1968.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Poona, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Pandit Bhimrao Chipalkatti, Deputy Superintendent of Central Excise.

Statement of services for which the certificate has been awarded

Shri Chipalkatti has been responsible for effecting a large number of seizures during his career. He has exhibited extraordinary courage in detecting the activities of notorious smugglers of gold. In 1961, he conducted detailed investigations in a case of gold smuggling and successfully conducted the prosecution of the offenders despite the latter's attempts to dissuade him by tempting him with illegal gratification of Rs. 25,000/- and also by threatening him with dire consequences, if he persisted in carrying out his duty. In fact, on the successful conclusion of the prosecution case, an attempt was actually made on his life but due to precautions taken by the authorities, the attempt was frustrated. During the period from 7th May, 1963, to 30th October, 1963, he effected seizure of about 30,000 grams of gold and in these cases also, he exhibited exemplary courage.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.III-B dated the 5th November, 1962.

Shri Chipalkatti is not eligible for any monetary allowance under clause (b) of the scheme, on account of his rank.

No. 31/11/63-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Madras, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Shri M. Muthuraman, Sub-Inspector of Central Excise.

Statement of services for which the certificate is awarded

On 14th March, 1963, Shri Muthuraman, while attached to the Customs Mobile Party, Tindivanam, was interrogating the occupants of a suspected car, when another car suddenly rushed past without stopping despite the Customs Party's

signals. Thereupon, Shri Muthuraman immediately gave chase in the first mentioned car, which he himself drove. After hot pursuit for ten miles, he overtook the second car and recovered therefrom contraband goods valued at Rs. 35,000/-. Thereafter, he proceeded towards Tindivanam to intercept other cars reported to be moving with contraband goods from that direction. Shortly, thereafter, he came across a saloon car moving at a high speed. With exemplary courage, he headed straight for this car, thus forcing it to stop. This act of daring, performed even at grave risk to his life, resulted in a further seizure of contraband goods valued at Rs. 24,000/-. Thus, he effected three seizures valued at Rs. 81,000/- on the same day.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad III-B dated the 5th November, 1962 and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 20 p.m. for a period of five years from 14th March, 1963 to 13th March, 1968.

No. 31/11/63-Ad III-B—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Custom House, Madras, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank

Shri L. Balasubramanian, Preventive Officer, Grade II.

Statement of services for which the certificate is awarded

On 28th September, 1963, after a great deal of preliminary work and assiduous planning Shri L. Balasubramanian succeeded in effecting seizure of gold worth Rs. 9 lakhs, concealed in a room in a hotel in Madras City. Thereafter with the help of other officers, he combed the city throughout the night for the car in which the gold was reported to have been smuggled and finally traced and seized it at 8 a.m. on 29th September, 1963. From his enquiries, he had gathered that the driver of the car was staying in the hotel, from which the gold had been seized. Shri Balasubramanian proceeded to arrest him. The driver offered resistance, bit the officer's hand and took out a knife to attack him. Although bleeding from the bite and exposed to grave personal danger, the officer grappled with the driver, overpowered him and took him into custody. Subsequently, Shri Balasubramanian pursued the case without respite and was successful in getting all the other concerned persons also arrested.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad III-B dated the 5th November, 1962 and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 20/- p.m. for a period of five years from 29th September, 1963 to 28th September, 1968.

No. 31/11/63-Ad III-B—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Customs and Central Excise, Pondicherry:—

Name of the officer and rank

Shri S. G. Kolandai, Inspector of Central Excise.

Statement of services for which the certificate is awarded

He has shown extra-ordinary courage in effecting a number of seizures. He has been responsible for curbing the activities of notorious smugglers in the territory of Karikal and in this task he has exhibited remarkable courage. On 20th November 1961, he effected the biggest gold haul on the South Eastern Coast valued at Rs. 2,37,500/- with great boldness and without any consideration for his personal safety.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad III-B dated the 5th November, 1962

and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause (b) *ibid* @ Rs. 25/- p.m. for the period from 5th November, 1962 to 19th November, 1966.

B. N. BANERJI, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1964

सं० 31/11/63-ऐडी-3 बी—गणतंत्र दिवस 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, निम्न वर्णित पदाधिकारी को विशेषतः विशिष्ट सेवा-पुस्त के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं :—

श्री ऐरिक हरबर्ट हेन्डरसन,

अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक (सेवा निष्पन्न)

कस्टम हाउस, कलकत्ता ।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क के विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खंड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट अध्यादेश के भाग I खंड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-ऐडी-3 बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी ।

सं० 31/11/63-ऐडी-3 बी—गणतंत्र दिवस 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहृतलय, पश्चिम बंगाल, बंगाल के निम्न वर्णित पदाधिकारी को अपने जीवन के जोखम पर भी कार्य करते समय की गयी अध्यादेश प्रशस्त सेवा के लिए सहर्ष प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम और पद

स्वर्गीय श्री केशव लाल घोष,

जिगाही

(सर गोपरास्त)

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण पत्र दिया गया है उनका विवरण

12-9-1963 की रात को लगभग 3.30 बजे दिवांगर के निकट एक निरोधक दल ने, जिसमें श्री घोष भी शामिल थे, संदिग्ध अवैध सामान ले जाने वाली एक कारी को बीच में ही रोक दिया । श्री घोष को आने वाली अन्य संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का काम सौंपा गया था । वे इस कर्तव्य का पालन करने के लिए कस्टम गाड़ी के सामने बड़े थे । तत्पश्चात् से आने वाली एक संदिग्ध गाड़ी दिखायी दी । श्री घोष द्वारा रुकने के लिये किये गये सकेत को अनदेखना करके उसने तलाशी से बचने

का प्रयत्न किया। रांवे जल से बचने के प्रयत्न में लारी कस्टम गाड़ी से टकरा गयी जिससे श्री भोप की घटनास्थल पर हा मृत्यु हो गयी। इस प्रकार श्री भोप ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-एडी-3 की दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 12-9-1963 से 11-9-73 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 रुपये प्रति माह की दर से उनकी विधवा के लिए देय वित्तीय भत्ता समें शामिल है।

सं० 31/11/63-एडी-3 बी—गणतंत्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहृतलय पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के निम्न वर्णित पदाधिकारी को, अपने जीवन को भी जोखिम में डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिए सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम व पद

स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र नाथ सरकार,

सिपाही

(मरणीयपरान्त)

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण

16 अक्टूबर, 62 को, अवैध सामान ले जाने वाली एक मंदिरण कार का पता लगाते तथा अभिग्रहण करने के लिये कलकत्ता से करीब 20 मील दूर ता ही रोड पर एक निरोधक दल, जिसमें कि श्री सरकार भी थे, तैनात किया गया था। दल ने कार को तेज रफ्तार से जाते हुए देखा तथा एक बेल-गाड़ी को सड़क के बीच में खड़ा कर उसे रोकने की कांशिश की। लेकिन संबिध कार के ड्राइवर ने कार को बेलगाड़ी से टकरा दिया जिससे कि श्री सरकार की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। इस प्रकार श्री सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया।

2. यह पुरस्कार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-एडी-3 की, दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 5 नवम्बर, 1962 से 15 अक्टूबर, 1972 तक की अवधि के लिए 10 रुपये प्रति माह की दर से उनकी विधवा के लिए देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है।

सं० 31/11/63-एडी-3 बी—गणतंत्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहृतलय, मद्रास के निम्न वर्णित पदाधिकारी को अपने जीवन को भी जोखिम में

डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम तथा पद

श्री के० अच्युत्य मेनन,

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक ।

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण

1-3-63 को श्री अच्युत्य मेनन, जबकि वे समाहर्तालय के मुख्यालय की कस्टम्स प्रिवेन्टिव यूनिट के साथ थे, अवैध वस्तुओं के परिवहन करने वाली कुछ संदिग्ध मोटर गाड़ियों की खोज में थे । वे एक सरकारी गाड़ी में थे जिसको कि वे स्वयं चला रहे थे । उन्होंने एक संदिग्ध कार को मद्रास की ओर तेज रफ्तार से जाते हुए देखा । उन्होंने उसका पीछा किया तथा तीन बार उसके निकट पहुँचते की कोशिश की परन्तु प्रत्येक बार ड्राइवर रोकें जाने से बच निकला । अन्ततः श्री मेनन ने संदिग्ध गाड़ी को पकड़ लिया तथा जब कार रेल के पुल के ऊपर सड़क के एक मोड़ पर थी उसका रास्ता काट कर उसे रुकने के लिए विवश किया । अपने जीवन के जोखिम पर भी यह साहसपूर्ण कार्य करने से गाड़ी तथा 71,000 रु० की मूल्य की अवैध वस्तुओं का अभिग्रहण हुआ ।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खण्ड 1 में अधि-सूचना संख्या 12/139/59-एडी-3 बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 1-3-63 से 29-2-68 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये 25 रु० प्रति माह की दर से देय विस्तार भत्ता इसमें शामिल है ।

सं० 31/11/63-एडी-3 बी—गणतंत्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, नम्बई कस्टम के निम्नवर्णित पदाधिकारी को अपने जीवन को भी जोखिम में डालने वाला कार्य करते समय की गयी असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम तथा पद

श्री बापू लक्ष्मण,

शिपाही ।

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण

श्री बापू लक्ष्मण अपने जीवन को भी जोखिम में डालकर कई लाख पयों की कीमत के स्वर्ण, मुद्रा तथा अफीम को अभिग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी रहे हैं । वे अवैध क्रियाओं में लगे हुए सरकारी पदाधिकारियों, जैसे पुलिस कास्टेबिल, कस्टम शिपाही, प्रिवेन्टिव इन्स्पेक्टरों, को भी पकड़वाने में भाग्य बनते हैं । 7-2-63 को उन्होंने 46,620 रु० के मूल्य की घड़ियों को ले जाते हुए एक पुलिस कास्टेबिल को पकड़ा जिसने कि घड़ियों को कपड़े की एक पेट्टी में छुपा कर अपनी कमर में बांधा हुआ था ।

यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-एडी-3 बी, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 7-2-63 से 6-2-68 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 10 रु० प्रति माह की दर से देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है।

सं० 31/11/63—एडी-3 बी—गणतन्त्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहृतलिय, पूना, के निम्नवर्णित पदाधिकारी को अपने जीवन के जोखिम पर भी कार्य करते समय की गयी असाधारण दशस्त सेवा के लिये सहृदय प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम और पद

पंडित भीमराव चिपलकट्टी,

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप-अधीक्षक

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण

श्री चिपलकट्टी अपने जीवन काल में बहुत से अधिग्रहण के मामलों के लिये उत्तरदायी रहे हैं। उन्होंने स्वर्ण के कुख्यात तस्कर व्यापारियों की कार्यवाहियों का पता लगाने में असाधारण साहस दिखाया है। 1961 में, उन्होंने स्वर्ण तस्करी के एक मामले में विस्तारपूर्ण जांच पड़ताल की और अपराधियों द्वारा 25,000 रुपये का अवैध पारितोषण का प्रलोभन देकर फुसलाने के लिये किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी, उन्होंने अभियोजन कार्य सफलतापूर्वक किया। उनका अपना कर्तव्य पालन करते रहने पर भयंकर परिणामों की धमकी भी दी गयी। वास्तव में, अभियोजन मामले के सफलतापूर्वक निपटारे पर वस्तुतः उनकी जान लेने की कोशिश की गयी, लेकिन अधिकारियों की सतर्कता ने उनकी कोशिश को निष्फल कर दिया। 7-5-1963 से 30-10-1963 की अवधि के दौरान में उन्होंने लगभग 30,000 ग्राम सोना पकड़वाया और इन मामलों में भी उन्होंने अनुकरणीय साहस दिखाया।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा-शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खंड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-एडी-3 बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

श्री चिपलकट्टी अपने पद के कारण योजना के खंड (ख) के अन्तर्गत कोई वित्तीय भत्ता पाने के पात्र नहीं है।

सं० 31/11/63—एडी-3 बी—गणतन्त्र दिवस 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहृतलिय, मद्रास के निम्नवर्णित पदाधिकारी को, अपने जीवन के जोखिम पर भी

कार्य करते समय की गयी असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम और पद

श्री एम० मुथुरमन,

उप निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण

14-3-63 को श्री मुथुरमन, जब कि वे टिन्डीवनम् सीमाशुल्क के चलते फिरते दल के साथ थे, एक संदिग्ध कार के व्यक्तियों के साथ पूछताछ कर ही रहे थे कि एक दूसरी कार सहसा सीमाशुल्क दल द्वारा संकेत देने पर भी बिना रुके दोड़ कर निकल गयी। इस पर भी श्री मुथुरमन ने तुरन्त ही पहले बताई गई कार में बैठकर उसका पीछा किया। कार को उन्होंने स्वयं चलाया। दस मील तक तेज पीछा करने के पश्चात् उन्होंने दूसरी कार को पकड़ लिया और उससे 35,000 रुपये की कीमत का अवैध सामान पकड़ लिया। उसके बाद, उन्होंने उन दूसरी कारों को पकड़ने के लिये टिन्डीवनम् की ओर प्रस्थान किया जिनको उस दिशा से अवैध सामान ले जाते हुए बताया गया था। उसके थोड़े ही वर बाद, उनको तेज रफ्तार से आने वाली एक सैलून कार मिली। अनुकरणीय साहम के साथ वे सीधे ही इस कार की ओर बढ़े और इस प्रकार उसको बलात् रोक दिया। अपने जीवन के गम्भीर जोखिम पर किए गए इस साहसपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप 24,000 रुपये की कीमत का अन्य अवैध सामान अभिग्रहण किया गया। इस प्रकार उन्होंने एक ही दिन में 81,000 रुपये की कीमत के तीन अभिग्रहण कार्य कराये।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खंड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खंड 1 में अधिमूचना संख्या 12/139/59-एडी-3बी दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फरवरी 1963 के खंड (ख) के अन्तर्गत 14-3-63 से 13-3-68 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये 20 रुपये प्रति माह की दर से वेतन वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है।

सं० 31/11/63-एडी-3बी—गणतन्त्र दिस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति कस्टम हाउस, मद्रास के निम्न वर्णित पदाधिकारी को अपने जीवन के जोखिम पर भी कार्य करते समय की गयी असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा-प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम और पद

श्री एल० बालासुब्रामनियन,

प्रिन्सिपल अफसर ग्रेड-II

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण

28-9-63 को बहुत अधिक प्रारम्भिक कार्य तथा कर्मठप्रायोजन के पश्चात् श्री एल० बालासुब्रामनियन ने 9 लाख रुपये की कीमत के सोने की, जो मद्रास शहर में एक होटल में एक कमरे में छिपा कर रखा हुआ था, अभिग्रहण करने में सफल हुए। उसके पश्चात् उन्होंने राज्य पदाधिकारियों की सहायता से, रात भर शहर की उस कार के लिये छान डाला जिसमें सोना चोरी से लाया

बताया गया था और अंततः उसे 29-9-1963 के प्रातः 8 बजे खोज लिया तथा अभिग्रहण कर लिया। अपनी पूछ-ताछ के आधार पर उन्होंने मालूम कर लिया था कि कार का ड्राइवर उसी होटल में ठहरा हुआ था जहाँ से सोना अभिग्रहण किया गया था। श्री बालासुब्रामनियन उसको गिरफ्तार करने के लिये बल पड़े। ड्राइवर ने प्रतिरोध किया, पदाधिकारी का हाथ दाँतों से काट लिया और उन पर आक्रमण करने के लिये चाकु निकाल लिया। यद्यपि काटने के कारण उनको खून निकल रहा था और व्यक्तिगत गम्भीर खतरा उनके सामने था तथापि वे ड्राइवर के साथ भिड़ गए, उसको पराभूत किया तथा गिरफ्तार किया। इसके बाद, श्री बालासुब्रामनियन ने बिना विश्राम किए मामले की पैरवी की और वे सभी अन्य सम्बंधित व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कराने में सफल हुए।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खंड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-एडी-3बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खंड (ख) के अन्तर्गत 29-9-1963 से 28-9-1968 तक पांच वर्षों की अवधि के लिये 20 रुपये प्रति माह की दर से देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है।

सं० 31/11/63—एडी-3बी—गणतंत्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाह्वनलिय, पांडिचेरी के निम्न वर्णित पदाधिकारी को सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

पदाधिकारी का नाम और पद

श्री एस० जी० कोलंडे,

निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण

उन्होंने बहुत से अभिग्रहण कार्य कराने में असाधारण साहस दिखाया है। वे करीकल क्षेत्र में कुख्यात तस्कर व्यापारियों की कार्रवाईयों को ध्वाने के लिये उत्तरदायी रहे हैं और उस कठिन कार्य में उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया है। 20-11-61 को उन्होंने महान निर्भयता के साथ और अपनी निजी रक्षा की कोई परवा न करके दक्षिण पूर्वी तट पर 2,37,500 रुपये की कीमत का सबसे बड़ा स्वर्ण लाभ कराया।

2. यह पुरस्कार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खंड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण, के भाग I खंड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-एडी-3बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः इसी के खंड (ख) के अन्तर्गत 5-11-1962 से 19-11-1968 तक की अवधि के लिये 25 रुपये प्रति माह की दर से देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है।

बी० एन० बनर्जी,

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार।